#### NEW SWAN MULTITECH LIMITED

CIN: U34100DL2014PLC265736 Address: Shop No. 310, 3rd floor, Vardhman Crown Mall, Plot No. 2, Sector-19, District Court Complex Dwarka,

South West Delhi, New Delhi-110075, India

E-mail: ac-nsml@newswan.in; Website: www.swanagro.in

**Tel No:** +91-161-4346000

09th September, 2024

To.

#### BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED

Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

**SCRIP CODE- 544082** 

Dear Sir/Madam,

<u>Sub: Newspaper advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")</u>

Pursuant to the Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper Publications w.r.t. Notice of 10<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company, information of Book Closure and E-Voting, published by the Company in Financial Express-All India Edition (English Newspaper) and Jansatta-All India Edition (Hindi Newspaper) on 08<sup>th</sup> September, 2024.

This is for your information and record

Thanking you,

Yours faithfully,

For New Swan Multitech Limited

Upkar Singh Managing Director

DIN: 01588157

11

RETAIL LENDING AND PAYMENT GROUP (LOCAL OFFICE/BRANCH): G-9. MAHIMA TRINITY MALL 3F-24. SWEJ FARM, NEW SANGANER ROAD, JAIPUR AXIS BANK LTD., 3RD FLOOR, GIGAPLEX, NPC – 1, TTC INDUSTRIAL AREA, MUGALSAN ROAD, AIROLI, NAVI MUMBAI – 400 708 AXIS BANK LTD. F-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND

RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AC 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULE, 2002 lotice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guaranton(s) th he below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical ossession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 16-Oct-2024 for recovery of Rs 10,23,553/-(Rupees Ten Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred Fifty Three Only) dues as on 27.08.2024 with future interest and costs due to the secured creditor MR, SHIV KUMAR & MRS, SADHNA in Loan No. PHR063602853670. Please refer the appended auction schedule for necessary details:-KNOWN ENCUMBRANCES(IF ANY) No

RESERVE PRICE (IN RS.)

DATE, TIME, AND VENUE FOR

PUBLIC E-AUCTION

Rs. 10,56,000/-(Rupees Ten Lakh Fifty Six Thousand Only) EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.) Rs. 1,05,600/-( (Rupees One Lakh Five Thousand Six Hundred Eighty Only) through DD/PO in favor of 'Axis bank itd.' payable at Delhi BID INCREMENTAL AMOUNT Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand only)

LAST DATE, TIME AND VENUE FOR Till 14-Oct-2024 latest by 05:00 P.M. Axis House, Tower-2 SUBMISSION OF BIDS / TENDER 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida-201301, U.P. addressed to Mr

> On 16-Oct-2024, between 11.00 A.M and 12.00 Noon. with unlimited extensions of 5 minutes each at web porta https://www.bankeauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form

declaration etc., are available in the website of the Service

Provider as mentioned above. SCHEDULE-DESCRIPTION OF PROPERTY:- Residential Building No.- F12/06.EWS. F-BLOCK Ground Floor) Area 29.70 Sq.Mtrs With Two Rooms, One Kitchen, One Bathroom and One W.C Manufactured. The Cover area 29.70 sqm. Lower limit Located in Madhuban Bapudham Residentia Scheme, Ghaziabad Pargana Dasna Tehsil and District Ghaziabad

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/s.C1 India

Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com. for any other assistance, the intending bidders may contact Mr. Mukesh Singh, Mobile. No. +91-9873015430 Authorized officer of the Bank during office hours from 10 a.m. to 4:00 p.m.

Sd/-, (Authorized Officer), Axis Bank Ltd. Date: 08.09.2024 , Place: Noida

#### MOTAK MAHINDRA BANK LTD. POSSESSION ffice: 27BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra ( E ), Mumbai- 400051 Whereas, The Undersigned Being The Authorized Officer Of Kotak Mahindra Bank Ltd., Under Th

Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 200 (54 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of Th Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Issued Demand Notices To The Borrowers As Details Hereunder, Calling Upon The Respective Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Sai Notices With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From Th Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower(S)/ Co Borrower(S) Having Failed To Repay Th Amount, Notice is Hereby Given To The Borrowers/ Co Borrowers And The Public In General That Th Undersigned Has Taken Possession Of The Property Described Hereunder In Exercise Of Powers Conferred On Him Under Section 13(4) Of The Said Act R/W Rule 8 Of The Said Rules On The Date: Mentioned Along-With. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not T Deal With The Properties And Any Dealings With The Properties Will Be Subject To The Charge Of Kota Mahindra Bank Ltd., For The Amount Specified Therein With Future Interest, Costs And Charges Fron The Respective Dates. The Borrowers Attention Is Invited To Provisions Of Sub Section (8) Of Section 1 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Assets.

Details Of The Borrowers, Scheduled Property, Outstanding Dues, Demand Notices Sent Under Section 13(2) And Amounts Claimed There Under, Date Of Possession Is Given Herein Below.

Name And Address Of The Borrower, Details of the 1. Date Of Possession 3. Demand Notice Date Co-Borrower Loan Account No., Loan Amount Immovable Property 2. Type of Possession 4. Amount Due In Rs. Mr. Sanjay Kumar Sehgal S/o Mr. Ramesh Chand All that piece and parcel of 1. 04.09.2024

Sehgal At: Moser Baer India Limited C/o Senior | Flat No.FA/1205 on 12th | 2. Symbolic Manager 66, Udyog Vihar, Greater Noida-122022 & Floor, in the building called Possession Mrs. Simmi Sehgal W/o Mr. Sanjay Kumar French Arcade situated at 3. 24.06.2024 Sehgal & Mr. Sanjay Kumar Sehgal S/o Mr. Plot No.H-4, Sector-14, 4. Rs.67,92,090/-Ramesh Chand Sehgal Both At: SKA 115, Shipra Kaushambi, Ghaziabad (Rupees Sixly Seven Vista, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010 & Both Also at:- F-62, Radhey Puri, Delhi- 110051 & Both Also at: Flat No.F-A/1205, 12th Floor, French Arcade, Sector-14, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001 Loan Account Number: 00166660004358 Loan Amount: Rs. 44,50,000/- (Rupees Forty Four & Mrs. Simmi Sehgal Lakh Fifty Thousand Only)

admeasuring 1030 sq. ft. Lakh Ninety Two including undivided Thousand And proportionate share of land Ninety Only) due and payable as of and common facilities. 02.09.2024 with Name of the Mortgagor: Mr. Sanjay Kumar Sehgai | applicable interest from 03.09.2024 unti payment in full: Mr. Rupesh Chandra Poddar S/o All that piece and parcel of property 1. 04.09.2024

W/o Mr. Rupesh Chandra Poddar in the building called French 3.13.06.2024 Both At: 433, Ground Floor, Shakti Arcade, on Eleveth Floor, situated 4. Rs1,08,36,866/- (Rupees khand- III Indirapuram, Ghaziabad, at Plot No. H-4, Sector-14, One Crore Eight Lakh Thirty Kaushambi Ghaziabad, Six Thousand Eight Loan Account Number: admeasuring 1445 Sq.Ft, including Hundred And Sixty Six Only Loan Amount: Rs. 57,72,300/- land and common facilities.

undivided proportionate share of due and payable as of 02.09.2024 with applicable (Rupees Fifty Seven Lakh Seventy Name of the Mortgagor: interest from 03.09.2024 Two Thousand Three Hundred Only) Mr. Rupesh Chandra Poddar until payment in full, Date: 08.09.2024 Place: Ghaziabad Authorized Officer For Kotak Mahindra Bank Limited

Mr. Jugal Sahu & Mrs. Sumita Paul | bearing Flat No. FA/1102, Block-1 | 2. Symbolic Possession

For any query please Contact Mr. Somesh Sundriyal (Mobile No.: +91 9910563402) & Mr. Ritesh Chauhan (Mobile No+ 917355036788)

#### PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED Regd. Office: 500, 5th Floor, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034

CIN: L65910DL1995PLC064310 Email: info@progressivefinlease in Website: www.progressivefinlease in NOTICE OF 40™ AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 30" Annual General Meeting (AGM) of the members of Progressive Finlease Limited will be held on Thursday, 30" September, 2024 at 12:00 P.M. (IST) at 367, Kohat Enclave, Pitampura, Delhi-10034, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of the 30" AGM along with the Annual Report 2022-23 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Annual Report 2023-2024 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 30" AGM is available on the website of the Company and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.msei.in. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Remote e-Voting: In compliance with relevant provisions of Section 108 of the Companies Act,

2013 read with relevant rules and other applicable provisions, the Company is roviding the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM through NSDL, detailed instructions are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on 27" September, 2024, 09.00 A.M. and ends on 29" September, 2024 at 05.00 P.M. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on 23° November, 2023 ("Cut-Off Date"). Any person who acquires shares and becomes a Member after the dispatch of the Notice and holds shares as on Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoling@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990. as provided by NSDL

Book Closure: Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24" September, 2024 to 30" September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM. Registration of e-mail addresses:

Members (Physical and demat holders) who have not yet registered their e-mail addresses are requested to send request to company on info@progressivefinlease in along with email addresses and scanned copy of PAN

to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting. By Order of the Board For PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED

Date: 07.09.2024

RAJEEV JAIN MANAGING DIRECTOR

#### OMANSH ENTERPRISES LIMITED CIN: L01100DL1974PLC241646

Office No. B-507, 5th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi- 110001 Email Id: omanshwork@gmail.com, Website: www.omansh.co.in

## NOTICE

Notice is hereby given that . The 49th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 12:00 Noon through Video Conferencing, to transact the business

- as set out in the Notice of the meeting dated 5th September, 2024 The Company on Friday, 6th September, 2024, completed the dispatch of Notice of 49th AGM along with the Annual Report for the year 2023-24 by electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository
- Participant(s) on Friday, 30th August, 2024 (the "Cut-off Date") The Notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDSL website www.evotingindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 27th
- September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the said Annual General Meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business(es)
- to be transacted at the Annual General Meeting. The e-voting facility will be available from Friday, 27th September, 2024 (9:00 A.M. to Sunday, 29th September, 2024 (5:00 P.M.) after which e-voting shall not be allowed. The Cut-Off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at
- the AGM is Monday, 23rd September, 2024. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-Off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use
- your existing user ID and password for casting your vote. Facility for Remote e-voting shall be available at the AGM. Members who have already cast their vote through Remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company. By the Order of the Board of

For Omansh Enterprises Limited

Anshu Kumari Agarwal

Mem. No. A72422

Place: New Delhi Company Secretary and Compliance Officer Date: 7th September, 2024 Reg Office: B-507, 5th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001

#### **NEW SWAN MULTITECH LIMITED** CIN: U34100DL2014PLC265736

Address: Shop No. 310, 3rd floor, Vardhman Crown Mall, Plot No. 2, Sector-19, District Court Complex Dwarka, South West Delhi, New Delhi-110075, India

E-mail: ac-nsml@newswan.in; Website: www.swanagro.in **Tel No:** +91-161-4346000

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting of New Swan Multitech **Limited** (the Company) will be held on Monday 30th day of September, 2024 at 03:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting

The dispatch of Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 along with the AGM Notice and E-voting procedure to the Members was completed.' The Annual Report has been sent electronically to those members, whose email addresses were available with the Company's Register and Transfer Agent, Big Share Services Pvt

The Members holding shares in physical mode are requested to notify the change in their address, if any, at the earliest to the Registrar & Transfer Agent/Company. However members, holding share in electronic mode may notify the change in their address, if any, to their respective Depository Participants.

In case you wish to support your Company's concern to prevent global environment degradation, you are requested to please register your E-mail ID with your DP, if you hold the Company's shares in electronic form, under intimation to the Register & Transfer Agent through your registered E-mail ID. However, if you hold the shares in physical form then you may register your email ID with Registrar & Transfer Agent of the company by sending a letter under your registered signature at the below mentioned address: Big Share Services Pvt Ltd.

S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road.

Andheri (East) Mumbai – 400093 MH, India. **E-mail:** ipo@bigshareonline.com

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the 'Act) read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 25th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting e- voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting which is available on the Company's website www.swanagro.in and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e. Monday, 23rd September, 2024 (eligible Members), can exercise their right to vote by using the remote e-voting and e-voting facility for all of the business specified in the Notice convening the AGM of the Company.

The remote e-voting will commence on Friday, 27th September, 2024 at 09:00 A.M. (IST) The remote e-voting will end on Sunday, 29th September, 2024 at 5:00 P.M. (IST);

For NEW SWAN MULTITECH LIMITED

Place: New Delhi Date: 07.09.2024

Sd/-Tanveer Kaur Company secretary

Place: New Delhi

Date: 06.09.2024

# PTC INDUSTRIES

ASPIRE . INNOVATE . ACHIEVE CIN: L27109UP1963PLC002931

Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Saraí Shahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India Ph: +915227111017, Fax: +915227111020. Web: www.ptcil.com

#### NOTICE OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING, AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS OF PTC INDUSTRIES LIMITED

- 1) The 61st Annual General Meeting ("AGM") of the PTC Industries Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("DAV") on Monday, September 30, 2024, at 03:00 PM, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, (the 'Act') MCA Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated 28th December 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the business set out In the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/QAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
- 2) In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com, website of National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM i.e. www.evotingindia.com
- Manner of registering KYC / updating email addresses:
- (a) In case shares are held in physical mode the relevant Forms for registering/changing KYC details and Nomination, viz. Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 as well as the SEBI circulars are available on our website at https://www.linkintime.co.in -> KYC-Formats. In order to make the folio KYC compliant, the holder is required to submit the duly completed Forms along with supporting documents as indicated
- (b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat Manner of casting vote(s) through e-voting:
- (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). (b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members
- holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com.
- (c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given In the Notes to Notice of AGM.
- (e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
- Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for Joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the 6. Members are further informed that the remote e-voting period shall
- start from Friday, September 27, 2024, at 9.00 A.M (IST) to Sunday, September 29, 2024, at 5.00 P.M. (IST) (both days Inclusive).
- A person, whose name is recorded in the Register of Members or In the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 only shall be entitled to vote.

For PTC Industries Limited

Date: September 07, 2024

Place: Lucknow

(Pragati Gupta Agarwal) Company Secretary

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## DR FRESH ASSETS LIMITED

CIN: L74899DL1990PLC042302 Regd Office: B1/E-24 Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110 044

Tel.No. 91-11-41679238, E-mail: drfresh@drfreshassets.com Website: www.drfreshassets.com INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONDERENCING (VC)/ OTHER

AUDIO VISUAL MEANS (OAVM). REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 29th September, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) ONLY, to transact the business set out in the Notice of the AGM. In accordance with General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing 4/2023 dated 5th January 2023 read with Circular No. 2/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021, Circular No. 19/2021 dated 8th December, 2021, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and allowing conducting of AGM through Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OVAM) without the physical Presence of the member of the meeting at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM facility only. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 including the financial statements for the financial year 2023-24, along with Directors' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of the Company i.e. www.drfreshassets.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.msei.in as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.

The members holding shares as on Sunday, 22<sup>nd</sup> September, 2024 including those who will not receive electronic copy of the annual report due to non-availability of their email address with the company can exercise their right to vote by following the instructions that will be given in the AGM notice. Manner of casting vote(s) through e-voting

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in

the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending

the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to

members through email The same login credential may also be used for attending the AGM through n case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository

please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining the AGM/ exercising e-voting facility: a) Physical holding: please send scan copy of a signed request letter mentioning your Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested

scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at drfresh@drfreshassets.com or to the email id of MAS Services Limited - Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company at mas\_serv@yahoo.com. Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP. Company is not declaring any dividend.

d) Shareholders holding shares in the physical form are required to convert their holding in DEMAT form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For and behalf of the Board

Dr Fresh Assets Ltd. Vijay Prakash Pathak

Whole Time Director, DIN: 07081958

RattanIndia

## RattanIndia Enterprises Limited

(CIN: L74110DL2010PLC210263)

Registered Office: 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1 Aerocity New Delhi -110037, Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindia.com, E-mail: rel@rattanindia.com

#### NOTICE OF 14™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 14th Annual General Meeting ("AGM") of RattanIndia Enterprises Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 30, 2024, at 04:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) ("MCA Circulars") and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI ("SEBI Circular") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") to transact the businesses set out in the Notice dated September 07, 2024, calling the AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company, Members intending to attend the AGM, may follow the procedures prescribed in the Notice of the 14th AGM.

The Company has, in compliance with the above Circulars, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2023-24, on Saturday, September 07, 2024, through electronic mode to those members whose e-mail addresses is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on Friday, August 30, 2024. Thus, the dispatch of the Notice and Annual Report stands Completed on Saturday, September 07, 2024

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulation"), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Monday, September 23, 2024, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialized form, to cast their right to vote electronically on the businesses set out in the Notice through remote e-voting. The procedure/instructions for remote e-voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, are contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindia.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. (IST) on Friday, September 27, 2024, and will end at 5:00 P.M. (IST) on Sunday, September 29, 2024. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM who had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM for remote e-voting and voting at the AGM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024, to Monday, September 30, 2024, (both days inclusive) for the purpose

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Vice President, KFin Technologies Limited at evoting@kfintech.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Enterprises Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Toll Free No. 1800-309-4001.

> Rajesh Arora Company Secretary

(Formerly known as TECHNIX ELECTRONICS LIMITED) Regd. office: Shop Kh. No. 424 Basement Ghitorni, Gadaipur, New Delhi, South West Delhi, DL- 110030

Corp. office: 12/3 Milestone Near Sarai Metro Station, Mathura Road. Faridabad, Haryana-121003 | CIN: L29305DL2002PLC116354 Website: www.rdcel.com, E-mail: compliance@rockingdeals.in

ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED

NOTICE OF THE 22<sup>ND</sup> AGM

## NOTICE is hereby given that:

 Twenty-Second (22<sup>nd</sup>) ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') of the Members of Company will be held on Monday, the 30<sup>th</sup> Day of September, 2024 at 03:00 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical attendance of Members, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with General Circular 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 and 11/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021 December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively followed by General Circular No.09/2023 dated September 25th, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and 'SEBI' Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities of Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM.

2023-24 is also available on the Company's website www.rdcel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. NSE Limited at www.nseindia.com and at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com. 3. Pursuant to Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules

. Members may note that a copy of the abovementioned AGM Notice and Annual Report

and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive).

4. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the Listing Regulations, (as amended from time to time, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. All members have been informed that:

a) The members may cast their vote electronically.

b) The e-voting period will commence at 09:00 A.M on Friday, September 27, 2024. c) The e-voting will end at 05:00 P.M on Sunday, September 29, 2024.

d) The Cut-off date for e-voting and voting at AGM is September 23, 2024.

e) The e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting on September 29, 2024 after 5:00 p.m. f) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 22<sup>nd</sup> AGM and whose name appears in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the

Depositories as on the cut-off date i.e September 23, 2024 may obtain the login ID and Password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to evoting@nsdl.co.in. g) Once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The members who have already casted their vote by remote e-voting prior to meeting may also attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again. In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked

Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager (NSDL) National Securities Depository (India) Limited, A wing 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Phone: 022 2499 4545 or call on toll free no.: 022-48867000 and or send a request to evoting@nsdl.co.in. h) The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 23, 2024 ("Cut-offdate").

. Members who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their

e-mail address for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars etc.

from the Company electronically. Manner of registering/updating email addresses is as under:

i) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to inform the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at <a href="mailto:compliance@rockingdeals.in">compliance@rockingdeals.in</a> or to Company's RTA Bigshare Services Private Limited at prasadm@bigshareonline.com. ii) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants are requested to register their email

addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

By Order of the Board of Directors ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED (Deepika Dixit) Place: New Delhi

**Company Secretary & Compliance Officer** 



## RattanIndia Power Limited

Registered Office: A-49. Ground Floor Road No. 4. Mahinalpur New Delhi 110037 Tel: 011-46611666, Fax: 011-46611777 Website: www.rattanindiapower.com, E-mail: ir rpl@rattanindia.com

### NOTICE OF 17™ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 17th Annual General Meeting ("AGM") of

Rattanindia Power Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 30, 2024, at 02:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the members at a common place, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) ("MCA Circulars") and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by SEBI ("SEBI Circular") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") to transact the businesses set out in the Notice dated September 07, 2024, calling the AGM. The deemed venue for the proceedings of AGM shall be the registered office of the Company. Members intending to attend the AGM, may

The Company has, in compliance with the above Circulars, sent the Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2023-24, on Saturday, September 07, 2024, through electronic mode to those members whose e-mail addresses is registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA)/Depository Participants as on Friday, August 30, 2024. Thus, the dispatch of the Notice and Annual Report stands Completed on Saturday, September

follow the procedures prescribed in the Notice of the 17th AGM.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulation"), the Company is providing e-voting facility through KFin Technologies Limited ("KFin"), the Registrar and Transfer Agent of the Company, for transacting the businesses contained in the Notice. The Company has considered Monday, September 23, 2024, as the cut-off date to record the entitlement of shareholders holding shares either in physical or dematerialized form, to cast their right to vote electronically on the businesses set out in the Notice through remote e-voting. The procedure/instructions for remote e-voting, including the process for obtaining the Login credentials for those shareholders whose e-mails are not registered either with the Company/RTA or their respective DPs, are contained in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report, along with all the documents referred to therein, is available on the Company's website www.rattanindiapower.com and also at https://evoting.kfintech.com (the website provided by KFin, for the purpose of e-voting) and also on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. (IST) on Friday, September 27, 2024, and will end at 5:00 P.M. (IST) on Sunday, September 29, 2024. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member shall not be allowed to change it subsequently. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the said Notice and holds shares as at cut-off date may obtain login ID and Password by sending request to evoting@kfintech.com. The Members present through VC/OAVM who had not cast their votes through remote e-voting facility and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM for remote e-voting and voting at the AGM are provided in the Notice of AGM.

The Company has appointed Mr. Sanjay Khandelwal of M/s S. Khandelwal & Co., Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the electronic voting process (both remote e-voting and e-voting at AGM) in a fair and transparent manner.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, as amended, and Regulation 42 of SEBI LODR Regulation, the Register of Members of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024, to Monday, September 30, 2024, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For addressing any grievances relating to e-voting facility, Members may please contact Ms. C Shobha Anand, Vice President, KFin Technologies Limited at evoting@kfintech.com, or may write to Ms. C Shobha Anand at KFin Technologies Limited, (Unit: RattanIndia Power Limited), Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Toll Free No. 1800-309-4001.

For RattanIndia Power Limited

Place: New Delhi Gaurav Toshkhani Date: 07.09.2024 Company Secretary

financialexp.epapr.in

Date: 07.09.2024

Place: New Delhi

New Delhi

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013,

For Rattanindia Enterprises Limited

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

Date: 08/09/2024

### स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1987PLC027057 पंजीकृत कार्यालयः जी –17, कृष्णा अपरा, बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034 ई–मेलः info@stancap.co.in

वेबसाइटः www.stancap.co.in, फोनः 011- 40154984

### 37 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक बंद करने और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केटस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन–देन करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 और सेबी के 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र और 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 (सामृहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पढें।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 के साथ एजीएम की सूचना, 07 सितंबर, 2024 को केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत है और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई दिया है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.stancap.co.in पर और https://www.stancap.co.in/report-and-disclosures/notice/annualgeneral-meeting/notice-of-agm-for-financial-year/2023-2024.pdf. पर भी उपलब्ध होंगे। और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर। एजीएम की सूचना सीडीएसएल ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत प्रासंगिक नियमों के साथ पठित और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के संदर्भ में, कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से, जो 27 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगा और 29 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, एजीएम की सूचना में दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में निर्देश का उल्लेख कर सकता है और इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए से info@skylinerta.com पर संपर्क कर

एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को दर्ज किया गया है, वह रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा के साथ—साथ आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा। एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग या ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान

यदि आपके पास CDSL ई-वोटिंग प्रणाली से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल लिख सकते हैं या 022–23058738 और 022–23058542६43 पर संपर्क कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्रयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई – 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@ cdslindia.com को ईमेल भेज सकता है या 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकता है।

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए

दिनांक: 07.09.2024 स्थान: नई दिल्ली

# VLS FINANCE LIMITED

CIN: L65910DL1986PLC023129, E-mail: vls@vlsfinance.com Website: www.vlsfinance.com, Ph: 011-4665 6666

राम गोपाल जिंदल

प्रबंध निदेशक

Notice of the 37th Annual General Meeting ('AGM') and E-voting Information Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of VLS Finance Limited ("the Company") will be convened through Video Conference ("VC") (Other Audio-Visual Means ('DAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and other relevant notifications. The schedule for the 37th AGM is as follows:

Day, Date and Time of Annual General Meeting	Saturday, 28/09/2024 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") ) Other Audio Visual Means ("OAVM")
Day and Date of Book Closure	: Saturday, 21/09/2024 to Saturday, 28/09/2024 (both days inclusive)
Cutoff Date for entitlement of e-voting	: Friday, 20/09/2024
Date of remote e-voting	: Wednesday, 25/09/2024 at 9.00 a.m. till Friday, 27/09/2024 upto 5.00 p.m.
E-voting at AGM	: Starting at Commencement of AGM and will end after 15 minutes of conclusion of AGM.

Kindly note that no physical copy of Annual Report for the Financial Year 2023-2024 will, therefore, be sent suo moto by the Company to the members either before or after the AGM and all communications from the Company relating inter-alia to AGM shall be made in electronic mode viz. email etc. The Company has approached National Securities Depository Ltd. ("NSDL") for providing e-voting facility for the ensuing AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes its member after dispatch of the AGM Notice or whose email ID is not registered updated with the Company and holding shares as on cut-off date may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company at email ID; <u>investor.services@rcmcdelhi.com</u> or mailing at RTA's office address. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions stated in the Notice of 37th AGM and in case of any queries connected with electronic voting; Shareholders may refer the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual for Shareholders available at the Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com. Only a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cutoff date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through e-voting at AGM.

The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 of the Company is available on the website of the Company at www.vlsfinance.com, the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the concerned stock exchanges www.bseindia.com., www.nseindia.com and www.cse-india.com. The business to be transacted through electronic means both ordinary and special have been set out in the notice

Members holding shares in physical form are advised to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form had been prohibited by the SEBI w.e.f. 01/04/2019. Further, they are also requested to register/ update their Email ID, Bank mandate, contact number, change in address (if any) enclosing self-attested proof thereof, with the Company by writing to the Company at the registered office or its RTA in prescribed form. Above details along with requisite documents can also be sent electronically to the Company's dedicated investor services email ID: hconsul@vlsfinance.com or RCMC Share Registry Pvt. Ltd.- the RTA at email ID: mdnair@rcmcdelhi.com or investor.services@rcmcdelhi.com followed by physical documents. The up-dated Bank details will enable electronic credit of dividend without any delay to the members besides compliance of SEBI's directive dated 16/03/2023. Dividend, if declared, at the ensuing AGM will be paid to members as on date of Book Closure for the said AGM.

Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants ('DP') for updating the Email ID, Bank Mandate, contact number, Address etc.

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company/RTA by sending documents in prescribed form through e-mail followed by physical copy thereof at the earliest as specified in the notice. Any delay/non updation of PAN with the Company may result in deduction of tax at a higher rate on dividend and other benefits, as and when declared by the Company besides other implications as enumerated in the notice convening 37th AGM. The members are requested to periodically check the website of the Company for any updates.

It may be noted that in absence of email ID it would not be possible for the Company to send any communication relating to forthcoming AGM inter alia relating to the link to join the AGM to be held through Video Conference/ DAVM, to such member. For any clarification, please contact Shri Ramesh C. Pandey-Group Head-Secretarial or the undersigned at +91-11-4665 6666. The above communication is intended for information and benefit of all members besides

complying with applicable directives. For VLS Finance Ltd.

Place: New Delhi

Date: 06-09-2024

H. Consul Company Secretary

M. No. - A11183

स्थान : लखनऊ

तिथि : 07 सितम्बर. 2024

## आईआईआरएम होलिंडग्स इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में सूदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से विदित) (सीआईएन नंबर : L70200UP1992PLC018150)

**पंजीकृत कार्यालय** : बी1 / 26, सेक्टर-18, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 वेबसाइट : https://www.iirmholdings.in/, ई—मेल : cs@iirmholdings.in, दूरमाष सं: +91 8447772518 31वीं वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट ई—वोटिंग जानकारी की सचना तदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आईआईआरएम होलिंडग्स इंडिया लिमिटेड ("कंपनी) की 31वीं

वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को शाम 04:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी') / अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम सूचना में निर्धारित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम सूचना तथा सदस्यों हेत् ई–वोटिंग प्रक्रिया के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट

का प्रेषण, शुक्रवार, 6 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से उन सभी सदस्यों को पूरा कर लिया गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए तथा/या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २० तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए सदस्यों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग) सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया था। सदस्यों के वोटिंग अधिकार शनिवार, 21 सितंबर, 2024 ("कट ऑफ तिथि") को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर

वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.iirmholdings.in/investors/ पर तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है। यह प्रलेख एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

पंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनपात में होंगे।

एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी तथा शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम नोटिस में रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग की प्रक्रिया के विवरण तथा प्रविधि तथा एजीएम में भाग लेने के अनुदेश समाहित हैं। इस नोटिस के भेजे जाने के बाद शेयर खरीदने वाले तथा कंपनी के सदस्य बनने वाले तथा कट–ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले सदस्य, अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, पैन, नाम तथा पंजीकृत पते सहित मअवजपदह / देकसण्बवण्पद पर ईमेल के माध्यम से एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

भौतिक रूप में तथा अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए. या जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन सदस्यों के लिये, मतदान की प्रविधि का उल्लेख एजीएम नोटिस में किया गया है। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध एफएक्यू तथा ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पस्तिका देख सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 022-4886 7000 / 022-2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप में, वे (सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

PTC INDUSTRIES

सीआईएन : L27109UP1963PLC002931

पंजीकृत कार्यालय : एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड टेक्नोलाजी सेंटर, एनएच-25ए,

सराय शाहजादी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-227101, भारत

दूरभाष : +91 522 7111017, फैक्स : +91522 7111020, वेब : www.ptcil.com

पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों हेतु 61वीं

वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट ई-वोटिंग

सुचना की जानकारी

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों, एमसीए परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक

8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020,

33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021

दिनांक 23 जून, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 5 मई,

2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023

(सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम बुलाने के

नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 61वीं वार्षिक

आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम

('ओएवीएम') के माध्यम से सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को 03:00 बजे (सायं)

आयोजित की जाएगी। सदस्य सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम

द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे । सदस्य रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग

shareholder/members login के तहत एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के

लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित

2. संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय

विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ संलग्न किये

जाने वाले आवश्यक दस्तावेज कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजा जायेगा जिनका ईमेल

पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट

www.ptcil.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर और सीडीएसएल

(रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने वाली एजेंसी)

(क) यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो केवाईसी विवरण और नामांकन दर्ज

करने/बदलने के लिए प्रासंगिक फॉर्म, जैसे कि फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2,

आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14 और साथ ही सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट

https://www.linkintime.co.in -> KYC-Formats पर उपलब्ध हैं।

फोलियो केवाईसी के अनुरूप बनाने के लिए, धारक को उसमें बताए गए सहायक

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध

है कि वे अपने ईमेल पते को उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट

दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना आवश्यक है।

(ख) डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते को अपने

(क) सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की

(ख) डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन

(ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध

(घ) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ईमेल के

(ङ) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का

5. सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सुचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से

6. सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर,

2024 को सुबह 09.00 बजे (भा.मा.स.) से रविवार, 29 सितम्बर, 2024 को शाम 5.00

7. कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तारीख यानी सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 तक सदस्यों

शेयरहोल्डिंग के मामले में) में दर्ज है, केवल वही मतदान करने के पात्र होंगे।

के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर (इलेक्ट्रॉनिक

एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने या एजीएम के

दिए गए निदेशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट कर सकते हैं।

कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना

माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके

ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, एजीएम के नोटिस में

सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट रूप से ('रिमोट

ई-वोटिंग') मतदान का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। विवरण

सुचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट डालने का अवसर होगा।

कंपनी की वेबसाइट www.ptcil.com पर भी उपलब्ध होगा।

वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

भी उपयोग किया जा सकता है।

दौरान वोटिंग करने के तरीके को ध्यान से पहें।

बजे (भा.मा.स.) तक (दोनों दिन सम्मिलित) होगी।

की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

करें जिनके साथ उनके डीमैट खाते अनुरक्षित हैं।

4. ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग की रीति :

3. केवाईसी पंजीकृत/ ई–मेल पते अपडेट करने की रीति :

करके इसे https://www.evotingindia.com

दिनाँक : 6 सितंबर, 2024

स्थान : हैदराबाद

कृते आईआईआरएम होलिंडग्स इंडिया लिमिटेड (पूर्व में सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से विदित) हस्ता./-नवीन कुमार

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

## न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड

district: U34000012014PLC265356 पता. दुखान पार ana. तीवती बीटिया कांचन कराज बीठा पतीह गरर ३ रावहत-का दिवत न्वादालक परिवार द्वारका, दक्षिण परिवम दिल्ली, नई दिल्ली-११००७६ भारत है—हेंदर ac-esmisternswein is : देवसमूद्ध www.skeengro.is देवरियोग जेवर +41-141-4316000

### 10वीं वार्षिक आग बैठक की सूचना

एरलद्वार सुचित किया जाल है कि न्यू स्वान सस्टीटेक सिनिटेड (कंपनी) की 10वीं यहिंक क्षम वैतक संस्थान ३० सिताबर, २०२४ को जारता १८०० को वीतियाँ कवियोगित (वियो)/जन्द ऑकियो विक्रमंत्र मध्यमी (मेएवीएम) के मध्यम से व्यवसाय का संबादन करने हे लिए आवंधित की जारनी, जैसा कि वार्तिक अम वेडक वर्ष सूचना में निर्धारेत किया गय है।

विलीय वर्ष 2023-24 के विषर कथती की वार्षिक रिपोर्ट के बाधा-स्वर एकीएम लोटिस और है-चंटिर प्रक्रिया संवरणे वरे श्रेजने का काम पुरा हो गया है।"

वर्षिक रिपोर्ट एन सरक्वों को इसेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी वर्ड है. विस्तर्क ईमेज पर्त कंपनी कं रिनिस्टर और ट्रांसफर एजेंट. मिंग शेवर सर्वितेन ब्राइवेट लिम्टिंड के पास उपलब्ध थे। भौतिक रूप से शेवर रहाने वाले सदस्वों से अलुक्ता है कि वे अपने पते में होने वाले परिवर्तन वरि कोई हो, को जल्द से जल्द हीमहार और ट्रांसकर एकेंट/कंपने को सुवित करें। हालीकि हर्सेक्ट्रॉनिक नोड में शेवन रखने वाले सदस्य अधने पते में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हो, को अरगे संबंधित तिथाजिद्यति प्रतिमानियों को सुधित कर सकते हैं।

वरि आप नैतिक पर्यावरण शरून को पोकले के लिए अपनी क्यानी की जिला का पापलीन करन नाएटे हैं. तो जारते अनुतेत है कि पाँदे जार इहोन्द्रियक क्षम में करनी से संगर रखते हैं. सं कुमा जपने जीमी के साथ अपना ई-मेल आईटी पत्रीकृत करें अपने पत्रीकृत ई-मेल आईटी के बाम्यम से कीलाटर और ट्रामकर एजेंट को स्थित करें। वालीकि धीरे आप मीटिक रूप में शेपर रहतो हैं, तो आप नीचे दिए रए को पर अपने पंजीवृत्त इस्ताधन के साथ एक यत्र फेजवन कंपनी के र्वावस्टान और ट्रांसकर एक्ट के साथ अपना ईमेल आईटी फंडीकृत कर सकते हैं: बिन सेयर सर्विलेज प्रायुक्त दिन्तिदेश

एतक-2, बर्धी मंत्रिल, निनेकल बिजनेस पार्च, अहुवा रोटर के बगल में, पहालाजी गुफा रोड, अंग्रेरी (पूर्व) गुरई – ४०००६० पुगर्व, गारत।

दिशांच : 07.09.2024

& Act. ipota bigebarconline.com कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की त्यारा दश के खाय कंपनी (प्रकाम एवं प्रशासन्त) नियम 2014 के निधन 10 और सेवी (सुवीबद्धता सांवित्य एवं प्रकटीकरण जावेतार) विनिदम 2015 वं विनिधन 42 के अनुसरत में घड़ भी सुधना दी जाती है कि कंदनी के सदस्त्रों का राजिस्टर और शोधर संस्तावरण वही आपानी वार्तिक आम बैठक के प्रदेश्य में बुक्यार, 25 सितंबर, 2024 में

संस्थार ३० जिलका, २०२४ तक (दोनों दिन सम्मितित) बंद रहेंगे। ळच्यी उराने सभी सदस्यों को वार्षिक अन्य नेहक की सुधना में विवर्शित सभी प्रस्तायों पर अपन बंद अवनं के रिश् रिमंट है-बंदिन मुनिया ('रिमंट ई-बंदिन') प्रतान कर रही है। हमले अतिरिक्तः कमन्त्रे वार्षिक अस्म बैडक ("ई-लोटिम") के वोशल ई-लोटिर असानी के माजम से मतवान की तुनिया प्रदान कर रही है। रिवांट ई-चोटिंग ई-चोटिंग की पिरनुत प्रक्रिया वर्षिक अभ बैठक की सुकद में थी गई है जो कंदनी की वेदसञ्जट www.swasagnain और स्टॉक एवलपेन यानी वीएवर्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.bscindia.com पर उपलब्ध है।

कर-ऑफ विधि दानों सोमधर 23 सिशंबर 2024 (राज सदस्य) को भौतिक रूप में या डीमैट क्षण में होबर सहने वाले सदस्य, कंपनी की एजीएम बुलाने की सुचना में निर्दिश रूपी प्रधानाव हे लिए रिमोट ई-चेटिम और ई-चेटिंग सुविधा का समयोग करके अपने वोट देने के अधिकरन का प्रयोग कर सकते हैं।

रियोह ई-योटिंग शतायर, 27 रियमर, 2014 को सुमह 01:00 बसे (आईएसरी) सुरू शेकी। रियंद ई-मोर्टिंग पविधार, 20 शिलबर, 2024 को ताम 500 को (बाईएसदी) रामान होगी।

न्यू स्वान मल्टीटेक सिमिटेड के लिए ERT /-तनवीर और स्थानः नई विल्ली क्षपनी वाचिव

8 सितंबर, 2024

विल्ली

जनसता

#### इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड सीआईएन: U99999DL2001PLC110396

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 1, 210 - अटलॉटिक प्लाजा, दूसरी यंजिल, स्थानीय लॉपिंग सेंटर, मयूर विहार फेज-1, दिलनी-110091 दरभाष: + 91-120-2328011-20 फेक्स: 0120-2328010 भल आइंडी: cs@indiaexpocentre.com वेबसाइट: www.indiaexpomart.com 23वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस और ई-वोटिंग की सचना

सचित किया जाता है कि कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **सोमवार, 30 सितंबर, 2024** को दोपहर 01:30 बजे "गवर्नमेंट सर्वेट्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड", कल्याण केंद्र, 9, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में आयोजित की जा रही है, ताकि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए नोटिस में बताए गए व्यवसाय को पूरा किया जा सके।

23वीं एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। इसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत परो पर भेज दी गई हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.indiaexpomart.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सचना प्रेषण का काम 6 सितंबर, 2024 को पूरा हो चुका है।

एजीएम में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज एजीएम की तारीख तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुड़ियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उस पर लागू नियमों के अनुसार, सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-बोटिंग) द्वारा अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। कंपनी ने वह सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-बोर्टिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सबह 10:00 बजे (भारतीय समयानसार) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-बोर्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-बोर्टिंग के निर्देशों के लिए कृपया एजीएम का नोटिस देखें।

 कंपनी एजीएम के दौरान बोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने बोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना चोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना चोट

 रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 है। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वह

रिमोट ई-बोर्टिंग या एजीएम में उपलब्ध मतदान सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। • कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का सदस्य बना हो अथवा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया हो, वो डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर. का उल्लेख कर evoting@nsdl.com या cs@indiaexpocentre.com पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

• किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.eyoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'सामान्यतः पृष्ठे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और 'ई-बोर्टिंग उपयोगकर्ता मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप सुश्री पल्लवी म्हान्ने, बरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, से 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर ईमेल कर सकते हैं।

• मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित अनुसार घोषित किए जाएंगे और उपर्युक्त कंपनी और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

इसके अलावा, एजीएम की मंजूरी के अधीन, रिकॉर्ड तिथि 27 सितंबर, 2024 तक शेयर रखने वाले सदस्यों को डिबिडेंड का भूगतान किया जाएगा। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे डिबिडेंड भूगतान के दौरान स्रोत पर सटीक कर कटौती (टीडीएस) सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि, 27 सितंबर, 2024 से पहले कंपनी के साथ अपने केवाईसी विवरण (पैन, बैंक खाता, आदि) को अपडेट करें।

निदेशक मंडल के आदेश से एसडी/ (अनुपम शर्मा) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

# RattanIndia

## रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

(CIN: L74110DL2010PLC210263) पंजीकृत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, टावर-बी, वर्ल्डमार्क 1 एरोसिटी नई दिल्ली -110037 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-46611777 वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: rel@rattanindia.com

> 14वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पुस्तक के परिसमापन की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड (कंपनी) की 14वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, दिनांक सितम्बर 30, 2024 को शाम 04:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्रों संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और कॉर्पेरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (एमसीए) ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी/एचओ/सीएफडी पीओडी-2/ पी /सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023, सेबी द्वारा जारी ("सेबी परिपत्रो") (इसके बाद सामृहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है ) दिनांक सितम्बर 07 2024 के एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेतु एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 14वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग

कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास यानि शुक्रवार, दिनांक अगस्त 30, 2024 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का (आरटीए, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन ) के द्वारा नोटिस में सुचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि सोमवार, दिनांक सितम्बर 23, 2024 रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में रिमोट ई-बाटिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डिपॉर्जिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindia.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 27, 2024 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और रविवार, दिनांक सितम्बर 29, 2024 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी । दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा । जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दुरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए बीसी/ ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं ।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री .संजय खांडेलवाल को नियुक्त किया गया है ।

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर मंगलवार, सितम्बर 24, 2024 से सोमवार, सितम्बर 30, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उपाध्यक्ष , केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फी नं. 1800-309-4001. तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (युनिट: रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गांचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है।

कृते रतनइंडिया एन्टरप्राईजेज लिमिटेड

राजेश अरोरा स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 07.09.2024 कंपनी सचिव

# **RattanIndia**

रतनइंडिया पावर लिमिटेड (CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय: ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777 वेबसाईटः www.rattanindiapower.com, ई-मेलः ir\_rpl@rattanindia.com

17वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा शेयरधारकों के पस्तक के परिसमापन की सचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) की 17वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, दिनांक सितम्बर 30, 2024 को दोपहर 02:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों एक सामान्य जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी । सामान्य परिपत्रों संख्या के अनुसरण में परिपत्रों संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्रों संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर , 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों (एमसीए) ("एमसीए परिपत्रों") और सेबी/एचओ/सीएफडी पीओडी-2/ पी /सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अवटूबर, 2023, सेबी द्वारा जारी ("सेबी परिपत्रों") (इसके बाद सामृहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है ) दिनांक सितम्बर 07, 2024 के एजीएम नेटिस में निर्दिष्ठ सभी व्यवसायों को निष्पादित करने हेत् एजीएम बुलाई गई है। एजीएम की कार्यवाही के लिए माना जाने वाला स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। एजीएम के लिए इच्छुक सदस्य 17वीं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं।

कंपनी ने उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) या डिपॉजिटरी के पास यानि शुक्रवार, दिनांक अगस्त 30, 2024 को पंजीकृत हैं उन्हें एजीएम की सूचना तथा 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को भेजी जा चुकी है। इस प्रकार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण शनिवार, दिनांक सितंबर 07, 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित नियम 20 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), के विनियम 44 के अनुसार कंपनी का (आरटीए, केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड (केफिन ) के द्वारा नोटिस में सूचिबद्ध व्यवसाय पर मतदान के लिए, ई-मतदान की सुविधा प्रदान करवा रहा है । इलेक्ट्रोनिक वोटिंग कास्ट करने के लिए या वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की पात्रता (भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर) नोटिस में दिए गए व्यवसाय पर रेकॉर्ड करने के लिए कट ऑफ तिथि सोमवार, दिनांक सितम्बर 23, 2024 रहेगी । दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम में रिमोट ई-वार्टिंग की प्रक्रिया निर्देश लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल कंपनी आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है वह एजीएम नोटिस में निहित है।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, संदर्भित सभी दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाईट www.rattanindiapower.com तथा https://evoting.kfintech.com (केफिन के द्वारा ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए प्रदान की गई वेबसाईट) पर तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है । दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, दिनांक सितम्बर 27, 2024 को सुबह 10:00 बजे (IST) शुरू होगी और रविवार, दिनांक सितम्बर 29, 2024 को शाम 5.00 बजे (IST) समाप्त होगी । दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को उसके पश्चात मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा । किसी भी सदस्यों को किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात उस सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो उक्त नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख के अनुसार शेयर रखता है, तो वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं । जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है और वह अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हो तो वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान किया है, वह भी वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता हैं, लेकिन उसको फिर से अपना मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में मतदान के लिए वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों) करने के लिए मेसर्स एस. खांडेलवाल एन्ड कंपनी के अभ्यासक कंपनी सचिव श्री .संजय खांडेलवाल को नियक्त किया गया है ।

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, समय -समय पर संशोधित के नियम 10 के अनुसार तथा सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 42 के अनुसार एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर मंगलवार, सितम्बर 24, 2024 से सोमवार, सितम्बर 30, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद

ई-मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी कष्ट के लिए सदस्य श्रीमती सी शोभा आनंद, उपाध्यक्ष , केफिन टेनोलोजिज लिमिटेड, से टोल फ्री नं, 1800-309-4001. तथा evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते है तथा वे श्रीमती सी शोभा आनंद को केफिन टेक्नोलोजिज लिमिटेड, (युनिट : रतनइंडिया पावर लिमिटेड) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 032, तेलंगाना पते पर भी लिख सकते है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

गौरव तोशखानी स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांक: 07.09.2024

www.readwhere.com

कृते पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(प्रगति गुप्ता अग्रवाल)

कम्पनी सचिव